

रौल नं०.....नाम परीक्षार्थी.....

XII-62

प्रीबोर्ड परीक्षा सन् 2025

A

लेखाशास्त्र - केवल प्रश्न-पत्र

समय - 3.15 घण्टा

कक्षा - 12

पूर्णांक -100

नोट:- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (ii) प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है)

नोट:- निम्न प्रश्न-खण्डों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर लिखिए:-

1. साझेदारों के चालू खाते का शेष होता है :-
(अ) सदैव डेबिट शेष (ब) सदैव क्रेडिट शेष
(स) कभी डेबिट और क्रेडिट शेष (द) इनमें से कोई नहीं।
2. ख्याति है :-
(अ) मूर्त सम्पत्ति (ब) अमूर्त सम्पत्ति
(स) चालू सम्पत्ति (द) इनमें से कोई नहीं।
3. अ और ब एक फर्म 3:2 के साझेदार हैं। वे स को फर्म के लाभ में $\frac{1}{6}$ हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं। अ, ब और स का नया लाभ-हानि अनुपात होगा :-
(अ) 3:2:1 (ब) 3:2:2
(स) 3 : 2 : 3 (द) 6 : 4 : 5
4. समता अंशधारी होते हैं :-
(अ) कम्पनी के लेनदार (ब) कम्पनी के स्वामी
(स) कम्पनी के ग्राहक (द) इनमें से कोई नहीं।
5. दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है :-
(अ) अधिकृत पूँजी (ब) निर्गमित पूँजी
(स) प्रार्थित पूँजी (द) चुकता पूँजी।
6. ऋण-पत्र है :-
(अ) ऋण का प्रमाण पत्र (ब) नकद का प्रमाण पत्र
(स) साख का प्रमाण पत्र (द) ये सभी।
7. सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा :-
(अ) चालू दायित्व (ब) अंश पूँजी
(स) संचय एवं अतिरेक (द) इनमें से कोई नहीं।
8. एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं :-
(अ) आर्थिक चिट्ठा (ब) लाभ-हानि का विवरण
(स) रोकड़ प्रवाह विवरण (द) ये सभी।

(पृष्ठ पलटिए)

9. आदर्श तरल अनुपात होता है :-

(अ) 2 : 1

(ब) 1 : 1

(स) 0.5 : 1

(द) 1 : 5

10. रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है :-

(अ) अतिरिक्त सूचनाओं से

(ब) लाभ-हानि खाते से

(स) आर्थिक चिट्ठे से

(द) इन सभी से।

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक, उत्तर सीमा 50 शब्द)

11. रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है?

12. कार्यशील पूँजी किसे कहते हैं?

13. वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइए।

14. ऋण-पत्र किसे कहते हैं?

15. सार्वजनिक कम्पनी की दो विशेषताएँ बताइए।

16. वसूली खाता किसे कहते हैं?

17. साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है?

18. पूर्वाधिकार अंश क्या है?

19. एक नये साझेदार को प्राप्त दो मुख्य अधिकार लिखिए।

20. ख्याति का अर्थ बताइए।

(लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 5 अंक- उत्तर सीमा 100 शब्द)

21. ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि क्या है?

22. अंशों पर अवशिष्ट मांग और अग्रिम मांगों से क्या आशय है?

23. समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में पाँच अन्तर बताइए।

24. नये साझेदार का प्रवेश किन-किन कारणों से हो सकता है?

25. ऋण पत्रों के पाँच प्रकार लिखिए।

26. अंशों के हरण से क्या आशय है? हरण प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए।

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 10 अंक - उत्तर सीमा 150 शब्द)

27. एक कम्पनी ने 100 रु. 10,000 अंश, रु. 20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किये। अंशों पर रकम निम्न प्रकार देय थी :-

आवेदन पर रु. 10, आवंटन पर रु. 40 (प्रीमियम सहित), रु. 30 प्रथम याचना पर शेष अन्तिम याचना पर देय थे। निम्न को छोड़कर सभी राशियाँ प्राप्त हो गई।

400 अंशों के धारक ने प्रथम तथा अन्तिम याचना नहीं दी।

200 अंशों के धारक ने अन्तिम याचना नहीं दी।

सभी 600 अंशों का अन्तिम याचना बाद हरण कर लिया गया। बाद में इन अंशों को रु. 80 प्रति अंश पूर्ण चुकता की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। कम्पनी के जर्नल में लेखा कीजिए।

अथवा

पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए।

28. निम्नलिखित के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। यदि एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य रु. 100 है।

- (अ) एक ऋणपत्र का निर्गमन रु. 110 पर किया जो रु. 100 पर शोधनीय है।
 (ब) एक ऋण पत्र का निर्गमन रु. 100 पर किया जो रु. 105 पर शोधनीय है।
 (स) एक ऋण पत्र का निर्गमन रु. 110 पर किया जो रु. 110 पर शोधनीय है।
 (द) एक ऋण पत्र का निर्गमन रु. 95 पर किया जो रु. 115 पर शोधनीय है।
 (य) एक ऋण पत्र का निर्गमन रु. 95 पर किया जो रु. 100 पर शोधनीय है।

अथवा

अंश और ऋण पत्र में अन्तर समझाइए।

29. निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए:-

	2020 रु.	2021 रु.
देनदार	42,000	46,000
पूर्वदत्त व्यय	2,000	2,700
उपार्जित आय	1,500	1,200
अग्रिम प्राप्त आय	800	1,000
लेनदार	26,000	28,000
देय विपत्र	13,000	11,000
अदत्त व्यय	8,000	6,000

निम्न समायोजनाओं पर विचार करने के पश्चात् 2021 के दौरान रु. 1,00,000 का लाभ हुआ था।

विनियोगों के विक्रय पर लाभ	2,000
मशीन के विक्रय पर हानि	900
अपलिखित ख्याति	3,000
लगाया गया ह्रास	2,900

अथवा

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य तथा महत्व का वर्णन कीजिए।

30. आपको निम्न सूचनायें दी गई है :-

	रु.
अंश पूँजी	1,10,000
सामान्य संचय	60,000
15% ऋण पत्र	1,00,000
वर्ष के लिए बिक्री	2,00,000
चालू वर्ष का कर भुगतान	40,000

(पृष्ठ पलटिए)

ब्याज व कर के बाद लाभ

80,000

उपर्युक्त सूचनाओं से निम्न अनुपातों की गणना कीजिए :-

- (अ) ऋण समता अनुपात। (ब) पूँजी आवर्त अनुपात
(स) ब्याज आवरण अनुपात
(द) विनियोजित पूँजी पर प्रत्याय दर
(य) ऋण व कुल कोष अनुपात।

अथवा

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-तृतीय भाग-प्रथम की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण का प्रारूप बनाइए।